

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII(1)/2019-116/2013
देहरादून: दिनांक 21 जून, 2019
कार्यालय-आदेश

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में डा0 राम गोपाल नौटियाल, प्रोफेसर, टी0बी0 एण्ड चेस्ट विभाग, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी का स्थानान्तरण सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोडा के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित किया जाता है।

2- डा0 नौटियाल को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्राचार्य, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोडा के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3- डा0 नौटियाल को कार्यवाहक प्राचार्य, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोडा के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु पृथक से अन्य कोई वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे।

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या-804/XXVIII(1)/2019-116/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, अल्मोडा।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी/अल्मोडा।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. मार्ल्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।